

दूरभाष/Phone : 040-27843385

एक्स/Extn: 410

रक्षा लेखा नियंत्रक/CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
नं.1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद/NO.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500 009

का.आ. भाग 1 / Part I O.O.No. 33

दिनांक /Date: 20.10.2014

विषय: महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी के परिणामस्वरूप कुछ भत्तों में 25% बढ़त के संबंध में स्पष्टीकरण।

Sub: Clarification on increase in certain allowances by 25% as a Result of enhancement of Dearness Allowance.

* * *

उपरोक्त विषय पर रक्षा लेखा महानियंत्रक के दिनांक 20.10.2014 के पत्रांक . AT/3510/6th CPC/Vol-IX की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाती है।

A Copy of CGDA letter No. AT/3510/6th CPC/Vol-IX, dated 20/10/2014 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information and necessary action.

sd/-

(वाई. राजा रेड्डी / Y.RAJA REDDY)
रक्षा लेखा नियंत्रक / CONTROLLER

फाइल सं. / File No. Pay Tech/4024/Allowances/CGDA

संवितरण / Distribution : As per standard List

अतिरिक्त प्रतियाँ / Spare Copies: 10 Copies

(जी. जयसूर्यन नायर / G. Jayasurian Nair)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी / Sr. Accounts Officer

Office of the Controller General of Defence Accounts
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt-110010

No. AT/I/3510/6th CPC/Vol-IX

Date: 20.10.2014

To

- 1) The PCDA (NC) Jammu
- 2) The PCDA (WC) Chandigarh
- 3) The PCDA (SC) Pune
- 4) The PCDA Bangalore
- 5) The CDA (Army) Meerut
- 6) The CDA Patna
- 7) The CDA Guwahati
- 8) The CDA Chennai
- ✓ 9) The CDA Secunderabad
- 10) The PCDA (CC) Lucknow
- 11) The CDA Jabalpur

Sub: Clarification on increase in certain allowances by 25% as a result of enhancement of Dearness Allowance.

A copy of MoD ID No. 1/8/2011/D (Pay/Services) dated 13.08.2014 on the above subject is forwarded herewith for information and necessary action.

Please acknowledge receipt.


For CGDA

Copy to:-

1. HQrs. EDP Centre (Local)
2. The CDA IT&SDC
Secunderabad

With a copy of above mentioned MoD ID for information & necessary action.


Accounts Officer (AT-I)




Ministry of Defence
D(Pay/Services)

Subject: Clarification on increase in certain allowances by 25% as a result of enhancement of Dearness Allowance.

Reference TRIPAS letter No. C/7026/6th CPC/Col.III dated 30 June 2014 on the above subject.

2. The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance through Defence (Finance). The clarifications are as under :-

- (a) The revision/enhancement of specified allowances should be calculated on the original rate (base rate) of allowances and not on the revised rates arrived at after first revision in January 2011.
- (b) The revision of rates of allowances by another 25% would become effective at 100% rate of Dearness Allowance


(P.S. Walia)
Under Secretary

Director, TRIPAS

MoD ID No. 1/8/2011/D(Pay/Services) dated 13th August, 2014.

✓ Copy to : CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt.

